

पूर्णपूर्ण के बीसीए में प्रवेश को इंटर में गणित की बाध्यता खत्म: कुलपति ब्रिज कोर्स से होगी गणितीय पूर्ति, 10वीं में गणित अनिवार्य विषय

देश में प्रभावी हुए नये कानूनों के अनुरूप विश्वविद्यालय ने किया अपने लॉ कोर्स को संशोधित

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की को सम्पन्न विद्या परिषद की 20वीं बैठक में इस सत्र से बीसीए (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन) का नया पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का अनुमोदन किया गया है निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन कार्डसिलिंग के माध्यम से बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

कुलपति प्रो.ओंकार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सामान्य श्रेणी के अधिकारियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों के लिए 40 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट

उत्तीर्ण होने की पात्रता निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उन अधिकारियों को भी अब बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश का मौका दिया जायेगा जिनके पास 12वीं कक्षा में गणित विषय नहीं रहा हो, बशर्ते कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में गणित अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा हो। परन्तु जिन अधिकारियों ने 12वीं कक्षा में गणित के ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। गणित के ब्रिज कोर्स का उद्देश्य बीसीए पाठ्यक्रम के लिए जरूरी गणितीय आधार उपलब्ध कराना है। बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गणित के लिए ब्रिज कोर्स शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ही पूरा करना होगा। जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा में गणित नहीं पढ़ा है, उन्हें ब्रिज कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना जरूरी होगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद ही बीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की

परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता होगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संस्थानों में 20 दिनों के अन्तराल पर दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी और ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने पर छात्र का प्रवेश निरस्त माना जायेगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण होने के लिए बाह्य परीक्षा में 30 प्रतिशत और कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। अंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंकों का एक क्लास टेस्ट होगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने हेतु किसी भी तरह के ग्रेस अंक नहीं दिये जायेंगे। कुलपति प्रो.ओंकार सिंह ने बताया कि बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एआईसीटीई / विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदण्डों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के पास मौजूद है। तीन वर्षीय बीसीए डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जायेगा जिसके लिए छात्र को न्यूनतम 90 क्रेडिट्स पूरे करने होंगे। जो छात्र डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं और ब्रेक लेने की तिथि से तीन

वर्ष में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाला कोई छात्र एक साल बाद पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहे तो उसे एक वर्षीय सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (सीसीए) रूप में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा परन्तु इस एक वर्ष के सर्टिफिकेट के लिए छात्र को न्यूनतम 45 क्रेडिट पूरे करने होंगे। इस कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकलने वाले छात्रों को ब्रेक लेने के तारीख से तीन साल के अन्दर फिर से प्रवेश करने की अनुमति भी होगी और अपना तीन वर्षीय बीसीए पाठ्यक्रम पूरा सकेंगे।

दूसरी ओर जो छात्र दो वर्ष पूरा करने पर इस पाठ्यक्रम से बाहर निकलना चाहेंगे उन्हें दो वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जायेगा जिसके लिए छात्र को न्यूनतम 90 क्रेडिट्स पूरे करने होंगे। जो छात्र डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं और ब्रेक लेने की तिथि से तीन

साल के भीतर दोबारा प्रवेश की अनुमति होगी और अपना तीन वर्षीय बीसीए डिप्लोमा कोर्स पूरा सकते हैं। तीन वर्षीय बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) की डिप्लोमा तभी प्रदान की जायेगी जब छात्र कुल 135 क्रेडिट अर्जित करेगा। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि देश में हाल ही में प्रभावी किये गये नये आपराधिक कानूनों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के लॉ विधाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उक्त नये कानूनों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यचर्चा एवं ऑर्डिनेस को तैयार कर प्रभावी किये जाने की अनुमति विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गयी है साथ ही होटल मैनेजमेंट विधाओं के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में पूर्व से संचालित मुख्य विषयों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत इनके स्थान पर बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार नवीन पाठ्यचर्चा को लागू किये जाने की अनुमति भी विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गयी है।